

अध्याय -10

राजा का चेहरा

इन शब्दों के अर्थ लिखो-

दरबारी- दरबार में उपस्थित लोग। घोषणा-ऐलान।

राजकोष -राज्य का खजाना । विदूषक- हंसी मजाक करने वाला ।

हाजिर -उपस्थित । शुक्रिया -धन्यवाद देना। चतुराई-होशयारी ।

फूला न समाना- अत्यधिक खुश होना।

सही उत्तर पर का निशान लगाओ

1.विजयनगर राज्य के राजा कौन थे?

क. तेनाली रामन [✓] ख.राजा कृष्णदेव राय ग नरेशचंद्र

2. तेनाली रामन क्या था?

क.लेखक ख.विदूषक [✓] ग.प्रदूषक

3.अपनी सूझ-बूझ के लिए कौन बहुत प्रसिद्ध था ?

क.तेनाली रामन [✓] ख. राजाकृष्णदेव ग.मंत्री

4.राजा ने सभी दरबारियों को क्या बाँटी ?

क.चांदी के सिक्के ख. सोने के सिक्के [✓] ग.तांबा के सिक्के

5. किसने उन सिक्कों से बहुत सारी चीजें खरीदी?

क.दरबारियों ने ख.मंत्री ने ग.तेनालीरामन ने [✓]

सही तथा गलत का निशान लगाओ-

1. तेनालीरामान ने अपनी थैली राजा को लौटा दी । [x]

2. सभी सोने के सिक्के ऊपर राजा का चेहरा छपा हुआ था । [✓]

3. तेनालीराम ने बड़ी चतुराई से राज्य सिंहासन हासिल कर लिया ।
[X]
4. तेनालीराम की चतुराई देखकर राजा बहुत खुश हो जाते । [√]
5. सभी दरबारियों ने अपने- अपने थैले वापस कर दिए । [√]
6. सभी को धनराशि एक सप्ताह के भीतर खर्च करनी थी । [√]

मुहावरों का अर्थ लिखो -

1. फूला ना समाना - अत्यधिक खुश होना ।
2. आश्चर्यचकित होना- हैरान हो जाना ।
3. भौचक्का रह जाना - अत्यधिक हैरान हो जाना ।
4. आँखों का तारा - बहुत प्यारा ।
5. खुशी का ठिकाना न रहना - बहुत अधिक खुश होना ।
6. दाल न चलना- वश न चलना ।
7. नाक में दम करना - बहुत तंग करना ।

प्रश्नों के उत्तर लिखो-

1. राजा कृष्णदेव की आँखों का तारा कौन था ?
उत्तर- राजा कृष्णदेव की आँखों का तारा तेनालीरामन था ।
2. तेनाली रामा क्यों प्रसिद्ध था?
उत्तर- तेनालीरामा अपनी सूझ-बूझ के लिए बहुत प्रसिद्ध था ।
3. राजा कृष्णदेव ने सभी दरबारियों को क्या बाँटी?
उत्तर- राजा कृष्णदेव ने सभी दरबारियों को सोने के सिक्के से भरी थैलियाँ बाँटी ।
4. राजा ने धनराशि को खर्च करने के लिए क्या शर्त रखी?
उत्तर- राजा ने धनराशि को खर्च करने के लिए शर्त रखा के सभी को यह धनराशि एक सप्ताह के भीतर खर्च करनी होगी ।
5. क्या तेनालीराम ने भी राजा को थैली वापस लौटा दी?

उत्तर- नहीं तेनालीराम ने उन सिक्कों से बहुत सारी चीजें खरीदी जिससे वह और उसका परिवार बहुत खुश हुआ।

6. राजा के शर्त को सुनकर सभी दरबारी कैसा महसूस कर रहे थे ?

उत्तर- राजा के शर्त को सुनकर सभी दरबारी स्वयं को ठगा महसूस कर रहे थे ।

7. तेनालीरामन का वास्तविक नाम क्या था?

उत्तर- तेनाली रामन का वास्तविक नाम गर्लपति रामाकृष्णनाचार्यालू था।

सही जोड़ी मिलाओ-

1. विजयनगर राज्य का राजा- कृष्ण देव राय।
2. एक विदूषक- तेनालीरामन।
3. सभी दरबारियों को - सोने के सिक्कों से भरी थैली बाँटी ।
4. तेनालीराम की चतुराई देखकर - राजा फूले न समाए ।

दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाओ-

आश्चर्यचकित होना, फूला न समाया, आंखों का तारा होना, नाक में दम करना

1. आश्चर्यचकित होना- ताजमहल की सुंदरता देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया।
2. फूला न समाया- करण अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके फूला न समाया ।
3. आंखों का तारा- सभी बच्चे अपने माता-पिता के आंखों का तारा होते हैं ।
4. नाक में दम करना- रोहन ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है ।